

श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवीजी) द्वारा नियम 324 के अन्तर्गत उठाये गये मामले की वस्तुस्थिति:-

माननीय सदस्य द्वारा निम्नलिखित प्रकरण पर ध्यान आकर्षित किया गया है:-

“में सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र श्री नैना देवीजी के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घवांडल में गत दिनों ग्राम पंचायत बैहल के एक मरीज़ को जब बीमारी की हालत में अस्पताल में एक्स-रे के लिए लाया गया तो मशीन होने के बावजूद भी मरीज़ का एक्स-रे बाहर से करवाने को कहा गया और बताया कि अस्पताल में बिजली का पर्याप्त लोड नहीं है जबकि बिजली विभाग के सम्बंधित अधिकारी मौके पर पहुंच कर अस्पताल में निरीक्षण उपरान्त पाया कि लोड में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है; क्या कारण है कि अस्पताल में यह सुविधा होने के उपरान्त भी पीड़ित लोगों को अधिक दूरों पर निजी क्लीनिक से एक्स-रे करवाना पड़ रहा है; मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में स्वास्थ्य केन्द्र घवांडल में एक्स-रे करवाने की सुविधा प्रदान की जाए ताकि आम जन-मानस को एक्स-रे करवाने हेतु अधिक दूरों का भुगतान न करना पड़े।”

माननीय अध्यक्ष महोदय,

यह सत्य है कि दिनांक 17.08.2020 को एक रोगी श्रीमती बागो देवी, ग्राम बैहल, जिला बिलासपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घवांडल, जिला बिलासपुर में एक्स-रे करवाने के लिए आई थी। यह एक Medico Legal Case (MLC) का मामला था। इस मरीज़ को बाहर से एक्स-रे करवाने का परामर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घवांडल के चिकित्सकों / कर्मचारियों द्वारा नहीं दिया गया। वस्तुतः उन्हें वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के कारण प्रतीक्षा करने को कहा गया। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस मरीज़ से पहले एक अन्य मरीज़ सुश्री रूबी का एक्स-रे भी 17.08.2020 को ही किया गया था। तत्पश्चात् वोल्टेज में उतार-चढ़ाव हुआ, जिसके कारण इस मरीज़ का एक्स-रे करने में कुछ विलम्ब हुआ, परन्तु उसी दिन इनका एक्स-रे भी कर दिया गया। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस स्वास्थ्य संस्थान में एक्स-रे संयंत्र कार्यात्मक स्थिति में है और सभी मरीज़ों, जिन्हें एक्स-रे की आवश्यकता होती है, एक्स-रे सुचारू रूप से किए जा रहे हैं। किसी भी मरीज़ या उनके अटैन्डैन्ट को निजी क्लीनिकों से एक्स-रे करवाने हेतु कोई भी सलाह नहीं दी जाती है।

इस स्वास्थ्य संस्थान में जनवरी, 2020 से 10 सितम्बर, 2020 तक 438 एक्स-रे किए गए, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

क्रं0 सं0	माह का नाम	कुल किए गए एक्स-रे की संख्या
1	जनवरी,2020	43
2	फरवरी,2020	42
3	मार्च,2020	62
4	अप्रैल,2020	44
5	मई,2020	60
6	जून,2020	66
7	जुलाई,2020	49
8	अगस्त,2020	50
9	1-9-2020 से 10-9-2020	22
	कुल संख्या	438

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यकतानुसार रोगियों को एक्स-रे सुविधा प्रदान की जा रही। बिजली के लोड की क्षणिक समस्या के कारण एक्स-रे में विलम्ब होने से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि सभी रोगियों को बाहर उच्च दरों पर एक्स-रे करवाने का परामर्श दिया जाता है।